

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 168

गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा दिया जाना

168. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा देने से देश में आतिथ्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी;
- (ख) पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा देने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्य सरकारों को पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा देने के संबंध में राजी करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा दिए जाने के संबंध में दिनांक 16.03.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 168 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

(क) : जी हां, महोदय । पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग' का दर्जा प्रदान किए जाने से यह अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा और इससे पर्यटन के अधिकाधिक उप-क्षेत्रों को अत्यधिक उंची वाणिज्यिक दरों पर भुगतान करने की पिछली अपेक्षा की तुलना में औद्योगिक दरों पर बिजली टैरिफ तथा अन्य करों के भुगतान सहित लाभ प्राप्त हो सकेंगे । इससे पूंजी प्रधान आतिथ्य परियोजनाओं की लागत को कम करने में भी सहायता मिलेगी और भावी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा ।

(ख) : अभी तक ग्यारह राज्यों ने पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग' का दर्जा प्रदान किया है । ये राज्य गुजरात, केरल, राजस्थान, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा हैं ।

(ग) : पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को पत्राचार के माध्यम से और विभिन्न इंटरैक्टिव सत्रों/उच्चतम स्तर पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ आयोजित बैठकों में अपने-अपने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा प्रदान करने की पुरजोर सिफारिश की है ।
